

मौजूदा और नियोजित उपाय नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए

लैंड रजिस्ट्री

हांगकांग में भूमि को प्रभावित करने वाले साधनों के पंजीकरण के लिए तथा भूमि पंजीकरण अध्यादेश के तहत सार्वजनिक खोज के लिए भूमि के रिकॉर्डों के प्रावधान के लिए लैंड रजिस्ट्री एक सार्वजनिक कार्यालय है। भूमि पंजीकरण अध्यादेश (कैप. 128) (LRO) तथा भूमि पंजीकरण विनियम (कैप. 128A) (LRR) हम मालिकों के कॉर्पोरेशनों (OCs) के पंजीकरण के लिए, OCs द्वारा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को दर्ज करने तथा OC रिकॉर्डों की खोज सेवाओं के प्रावधान जोकि बिल्डिंग प्रबंधन अध्यादेश (कैप. 344) (BMO) के तहत है, के लिए जिम्मेदार हैं। हम जनता के सभी सदस्यों द्वारा उनकी नस्लीय और जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना संबंधित सेवाओं के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने करने को बहुत महत्व देते हैं।

संबंधित सेवाएं

- लैंड रजिस्ट्री उन साधनों को पंजीकृत करेगी जो LRO और LRR का अनुपालन करते हैं। जनता, क्वीन्सवे में स्थित ग्राहक केन्द्र तथा क्रमशः ताई पो, त्सुएम वान और यूएम लॉग में स्थित नए क्षेत्र खोज कार्यालय (सामूहिक रूप से “लैंड रजिस्ट्री कार्यालय”) से या एकीकृत पंजीकरण सूचना प्रणाली की ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भूमि रजिस्टर तथा भूमि के रिकॉर्डों की प्रतियाँ प्राप्त कर सकती है।
- BMO के अधीन नियुक्त प्रबंधन समितियाँ OCs के पंजीकरण के लिए भूमि रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती हैं। OCs की प्रबंधन समितियों के सचिव BMO के तहत भूमि रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज दर्ज करेंगे। जनता के सदस्य संबंधित लैंड रजिस्ट्री के कार्यालयों से OC

रिकॉर्ड खोज सकते हैं।

मौजूदा उपाय

- लैंड रजिस्ट्री कार्यालय सेवाओं के प्रावधान में जनता को चीनी तथा/अथवा अंग्रेजी में संप्रेषित करता है। जनता के लिए सभी प्रिंट की हुई जानकारी (जानकारी लीफलेट तथा आवेदन पत्र, आदि सहित) तथा विभागीय और IRIS वेबसाइटों पर जानकारी चीनी और अंग्रेजी में हैं।
- आवश्यक होने पर जातीय अल्पसंख्यक निवासियों के सद्भाव और संवर्धन केन्द्र (CHEER) के माध्यम से व्याख्या सेवा की व्यवस्था की जाएगी। CHEER आठ भाषाओं जिनके नाम हैं भाषा इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, उर्दू, टागालोग, थाई और वियतनामी में व्याख्या सेवा प्रदान करता है।

भावी कार्य का
मूल्यांकन

- सतत सुधार के लिए समय-समय पर उपायों की समीक्षा की जाती है। उपयोगकर्ताओं के फीडबैक/सुझावों को, यदि कोई हैं, रिकॉर्ड किया जाता है तथा यह देखने के लिए समीक्षा की जाती है कि कहाँ और आवश्यक तथा उचित सुधार किया जा सकता है।

किए गए/किए जाने
वाले अतिरिक्त
उपाय

- हम समान अवसर आयोग, संवैधानिक और मुख्य भूमि के मामलों के ब्यूरो, सिविल सेवा प्रशिक्षण और विकास संस्थान, इत्यादि जैसे प्रासंगिक संगठनों द्वारा प्रदान किए गए उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने स्टाफ को नामांकित करते रहेंगे, ताकि नस्लीयता और जातीयता की समानता के बारे में उनकी जागरूकता और समझ को बढ़ाया जा सके।

जातीय समानता को बढ़ावा देने पर उपरोक्त उपायों के संबंध में पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित माध्यमों से हमारे ग्राहक सेवा प्रबंधक से संपर्क करें-

टेलीफोन नं. : 3105 0000
फैक्स नं. : 2596 0281
ईमेल : csa@landreg.gov.hk
पोस्टल पता : लैंड रजिस्ट्री
क्वींसवे सरकारी कार्यालय
28वीं मंजिल
66 क्वींसवे
हांगकांग

लैंड रजिस्ट्री
मई 2020